




HERBAL PROTIWON

For Little Champs



Herbal Protiwon (For Children)

Herbal Protiwon (for children) contains Aloe Vera, Whey Protein, Ashwagandha, Soya Protein and cardamom. It is source of protein, vitamins, minerals, anti oxidants, carbohydrates etc. It protects from many diseases by fulfilling the deficiency of nutritive elements. It is available in Vanilla and Chocolate flavours.



Brahmi

Brahmi is also known as brain booster. It is the optimal source to sharpen the brain.



Shankpushpi

Shankpushpi plays a vital role to strengthen the immune system. It is a boon to bones for providing sturdiness.



Ashwagandha

It helps make the body well built. It has medicinal qualities as energy booster, antitubercular and immunity provider.


Benefits of Herbal Protiwon

- * It helps boost resistance and immunity and also helps strengthen the muscles in the body.
- * It is the best source of protein and energy for children.
- * It helps strengthen the digestive system in children.
- * It helps formation of new cells and tissues in the body.
- * It helps boost the appetite.
- * It helps treat anemia in the children.
- * It helps sharpen the brain by increasing the memory.
- * It keeps the teeth and bones strong & sturdy.



हर्बल प्रोटीवोन(बच्चों के लिये)

हर्बल प्रोटीवोन एलोवेरा, वे प्रोटीन, अश्वगंधा, ब्राह्मी, विधारीकन्द, सोया प्रोटीन, बादाम युक्त है। यह प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि का स्रोत है। यह पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। यह वेनिला व चॉकलेट फ्लेवर में उपलब्ध है।



ब्राह्मी

ब्राह्मी को ब्रेन बूस्टर के नाम से जाना जाता है। यह दिमाग को तेज करने का अति उत्तम स्रोत है।



शंखपुष्पी

शंखपुष्पी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। यह हड्डियों की मजबूती के लिये वरदान है।



अश्वगंधा

यह शरीर को गठीला बनाने में सहायक है। यह शक्तिदायक, क्षयनाशक, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि है।

हर्बल प्रोटीवोन के लाभ

- * यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता एवं मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक है।
- * यह बच्चों के लिये प्रोटीन और ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है।
- * यह बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक है।
- * यह शरीर में नई कोशिकाओं और टिशू का निर्माण करने में सहायक है।
- * यह भूख बढ़ाने में सहायक है।
- * यह बच्चों में हो रही खून की कमी को पूरा करने में लाभकारी है।
- * यह स्मरण शक्ति को बढ़ा कर दिमाग को तेज करने में लाभकारी है।
- * यह हड्डियों को मजबूत करने में सहायक है।

